



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 1977/आषाढ़ 11, 1899

No. 233]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1977/ASADHA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July 1977

G.S.R. 473(E).—The following draft of certain rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government

DRAFT RULES

1 These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 1977

2 In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) They shall come into force on the 30th of October, 1971”

3. In rule 2 of the said rules, clauses (b), (c) and (g) shall be omitted

4. In rule 25 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely—

“(1) The fees payable for testing or analysing insecticides under sub-section (5) of section 24 of the Act shall be as specified in the Second Schedule”.

EXPLANATORY MEMORANDUM INDICATING REASONS FOR AMENDING SUB-RULE (2) OF RULE 1 OF THE INSECTICIDES RULE, 1971, AS PROPOSED IN DRAFT RULE 2 OF THE NOTIFICATION

Sub-rule (2) of rule 1 of the Insecticides Rules, 1971, provides that the rules shall come into force on the 1st August, 1971. This is the date on which the Insecticides Act, 1968, was brought into force. However, due to the non-completion of certain formalities, the Insecticides Rules, 1971, could not be issued on or before the 1st August, 1971, the date from which it was proposed to give effect to these rules. These rules actually were published in the Gazette of India on the 30th October, 1971. The rules have thus been given retrospective effect, although the Insecticides Act, 1968, does not give any authority for making rules thereunder with retrospective effect.

On the recommendation of the Committee on Subordinate Legislation of the Rajya Sabha, the matter has been considered and it has been decided by the Government of India that sub-rule (2) of rule 1 of the said rules should be amended to give effect to the rules from the 30th October, 1971, the date on which these rules were notified.

The above amendment is not likely to affect the interest of any one as no certificate of registration or licence had been issued before the 30th of October, 1971.

[No 22-27/72-PPS]

A. J S SODHI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1977

सा० का०नि० 473 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 48) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति में प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1977 है।
2. कीटनाशी नियम, 1971 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 1 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“(2) ये 30 अक्तूबर, 1971 को प्रवृत्त होंगे।”

3 उक्त नियमों के नियम 2 में, खण्ड (ख), (ग) और (छ) का लोप किया जाएगा

4. उक्त नियमों के नियम 25 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“(1) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन कीटनाशियों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए मदेय फीस वह होगी, जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।”

अभिसूचना के नियम 2 के प्रारूप में प्रस्तावित कीटनाशी नियम 1971 के नियम

1 के उपनियम (2) में संशोधन करने के लिए कारणों को प्रवर्धित करने के विषय में स्पष्टीकरण संबंधी शायम

कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 1 के उपनियम (2) में व्यवस्था है कि ये नियम 1 अगस्त, 1971 को लागू होंगे। इस तारीख को कीटनाशी अधिनियम 1968 लागू होना था। तथापि कतिपय औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कीटनाशी नियम 1971 को व्यवस्थानुसार 1 अगस्त, 1971 या उससे पहले जारी नहीं किया जा सका, वास्तव में ये नियम 30 अक्टूबर, 1971 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। इन नियमों को पिछली तारीख से लागू किया गया है, यद्यपि कीटनाशी अधिनियम, 1968 में उसे पिछली तारीख से लागू करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

राज्य सभा की सर्वाइनेट लेजिमलेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर विचार विमर्श करने के पश्चात् भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन नियमों को 30 अक्टूबर, 1971 से लागू करने के लिए उक्त नियमों के नियम 1 के उपनियम (2) को संशोधित किया जाए ताकि वे अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू हो सकें।

उक्त संशोधन से किसी के हित को क्षति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 30 अक्टूबर, 1971 से पहले पंजीकरण या लाइसेंस का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है।

[स 22-27/72—पी० पी० एस०]

ए० ज० एम० सोढी, सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

